

प्रेस नोट- सराहनीय कार्य दि०- 16.11.2020

**थाना कांट पुलिस ने किया सर्राफा दुकान मे चोरी का सफल अनावरण,
चोरी किये गये आभूषण व सिक्कों सहित 02 शातिर चोर गिरफ्तार ।**

दि०- 06/11/2020 को कांट थानाक्षेत्र मे राजीव गुप्ता पुत्रा रामऔतार गुप्ता नि० मो० मरहैय्या कस्बा व थाना कांट जिला शाह० की कुर्रिया तिराहे पर स्थित सर्राफा दुकान मे चोरी हो गयी थी । सूचना पर थाना कांट पर मु०अं०स० 764/20 धारा 457/380/411 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

सर्राफा दुकान मे हुयी चोरी की इस घटना को पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा गम्भीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्ष व क्षेत्राधिकारी के निर्देशन मे 04 पुलिस टीमे गठित कर चोरी की घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्तो को गिरफ्तार करने हेतु निर्देश दिये गये ।

पुलिस टीमों द्वारा तत्काल अपने मुखबिरों को अलर्ट किया गया तथा घटना मे संलिप्त अभियुक्तो की सुरागरसी व पतारसी की जाने लगी । इस क्रम मे दिनांक 15/16.11.20 की रात्रि मे करीब 03 बजे कांट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कमलनैनपुर तिराहा पर चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों को रोका । पुलिस को देखकर पाचों अभियुक्त भागने की कोशिश करने लगे । पुलिस टीम द्वारा तत्काल घेराबन्दी कर 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया तथा 03 अभियुक्त भागने मे सफल रहे । अभियुक्तो के कब्जे से दिनांक 06.11.20 को सर्राफा दुकान मे की गयी चोरी का माल बरामद किया गया । इस सम्बन्ध मे थाना कांट पर वैधानिक कार्यवाही कर अभियुक्तों को मा० न्यायलय के समक्ष पेश किया जायेगा । फरार अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण:-

- 1-बलीराम पुत्र केदार नि० ग्राम मिल्किया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर ।
- 2-बिहारी पुत्र बालिस्टर नि० ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर ।

फरार अभि०गण-

- 1-घासू पुत्र नामालूम नि० ग्राम ईसापुर झाला थाना निगोही शाह०
- 2-पूरन पुत्र पप्पू नि० ग्राम ईसापुर थाना निगोही शाह० तथा
- 3-चौखे पुत्र पुतान नि० ग्राम बलरामपुर थाना निगोही शाह०

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तो से पूछताछ मे बताया कि दिनांक 06.11.20 को कुर्रिया तिराहे पर स्थित सर्राफा दुकान से हम लोगों ने चोरी की थी तथा आज फिर हम सब चोरी करने जा रहे थे कि आपके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया ।

माल बरामदगी

- 1-06 जोडी पायल सफेद धातु
- 2-11 सिक्के सफेद धातु
- 2- एक झोले से नकब लगाने का उपकरण (हथौडी, प्लास,पेचकर, आला नकब आदि)
- 3-एक आधार कार्ड वादी मुकदमा (राजीव गुप्ता)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ०नि० श्री प्रतीक शर्मा थाना कांट शाहजहाँपुर
- 2.का० 534 रामसंजीवन थाना कांट शाहजहाँपुर
3. का० 876 अनिल कुमार थाना कांट शाहजहाँपुर
4. का० 1951 पुष्पेन्द्र थाना कांट शाहजहाँपुर
5. का० 1798 अनन्तराणा थाना कांट शाहजहाँपुर